

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली
Central Board of Secondary Education, Delhi

परीक्षा केन्द्र के आकस्मिक खर्च का बिल Bill for Contingency Charges

परीक्षा केन्द्र संख्या (केन्द्र का नाम

Centre No.....(Name of Centre.....

परीक्षा का नाम और वर्ष.....

Name & year of Examination.....

क्रम सं० Sl. No.	वाउचर की तिथि Date of Voucher	आकस्मिक खर्च का विवरण Detail of Contingencies	राशि रु० पे० AMOUNT	उपभोग सामान खरीदा जाने की स्थिति में क्या उसकी पूरी खपत हो गई है या वह बच गया/क्या कार्यालय को वापस कर दिया गया। सभी खर्च उपयुक्त वाउचरों द्वारा समर्थित होना चाहिए। In the case of purchase of consumable articles whether wholly consumed or left over returned to Board's office. All the expenditure should be supported with proper vouchers.
		1. Maintenance charge for furniture on the basis of maximum No. of candidates appeared on any one day@ 1.25 p. per candidate.		
		2. Labour charges for seating arrangement on the basis of maximum no of candidates appeared on any one day @ Rs. 0.35 P.		
		3. Conveyance charges for collection of centre material from the Board's office, Distance from School to Board's office one side scooter & one side bus.....km.		
		4. Rem. & Conveyance for collectin of Q.P.from Bank per day (a) Rem. @ Rs. 30/- for..... days..... (b) Conveyance charges @ Rs. 30/- for.....days.....		
		5. Rem. & Conveyance charges for depositing the Ans. books at collection centre. Class (i) Rem @ Rs. 20 for.....days..... X (ii) Conveyance charges @ Rs. for.....days..... Class (i) Rem @ Rs. 20 for.....days..... XII (ii) Conveyance charges @ Rs. for.....days.....		
		6. Conveyance charges for depositing the balance of Ans. Books and attendance sheets and allied articles of both the exams.		
		7. Stationery Charges		
		8.		
		9.		
		10.		

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दावाकृत राशि उसके सामने दिए गए प्रायोजन के लिए वस्तुतः खर्च की गई थी और खरीदे सामान की पूर्णता खपत हो गई है और या कॉलम 5 में लिया गया बचा हुआ सामान बोर्ड कार्यालय को वापिस कर दिया गया।

Certified that the amount claimed above was actually spent for the purpose given against each and that the articles purchased have been consumed wholly in connection with the conduct of the examination.

अधीक्षक के हस्ताक्षर
Signature of Superintendent

STATIONERY CHARGES

Main Exam :

Stationery charges @ Rs. 1.50 per candidate is payable on the basis of registered number for each scheme of examination.

Comptt. Exam.

HOWEVER for comptt. exam. the stationery charges will be payable @ Rs. 0.50 paise per candidate on max. No. of candidates registered for the day only under Delhi Region.

MAINTENANCE CHARGES FOR FURNITURE

Those school who provide full furniture to the allotted candidates will be paid maintenance charges @ Rs. 1.25 p. per candidate on the Max. No. of candidates appeared on any one day only in both the exam. However no maintenance charges will be paid to those school who hire the furniture, from nearby school or partly provided by the school.

For Comptt. Examination no maintenance charges for furniture will be paid.

SEATING ARRANGEMENT (Labour Charges)

For seating arrangement labour charges will be paid @ Rs. 0.35 paise per candidate on the basis of max. no. of candidates registered for the exam. on any one day only.